

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿۳۱﴾ قَالُوا إِنَّا

ઈબ્રાહીમ (અલૈહિસ્સલામ) ને ફરમાયા ફિર તુમ્હે કયા કામ સૌપા ગયા હૈ, એ ફરિશતો? વો કેહને લગે હમ

أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿۳۲﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ جَارَءَةً

મુજરિમ કૌમ કી તરફ ભેજે ગએ હૈ. તાકે હમ ઉન પર મિટ્ટી

مِّن طِينٍ ﴿۳۳﴾ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿۳۴﴾

કે પથ્થર બરસાએ. જો તેરે રબ કે પાસ હદ સે આગે બઢને વાલો કે લિયે નિશાનઝદા હૈ.

فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۵﴾

ફિર હમ ને ઈમાન વાલો કો નિકાલ લિયા જો ઈસ બસ્તી મેં થે.

فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۳۶﴾ وَتَرَكْنَا

ફિર હમ ને ઈસ બસ્તી મેં મુસલમાનો કે એક ઘર કે સિવા નહીં પાયા. ઓર હમ ને

فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿۳۷﴾

ઉસ મેં નિશાની છોડ દી ઉન લોગો કે લિયે જો દર્દનાક અઝાબ સે ડરતે હૈ.

وَفِي مِثْلِهِ مِثْلُ مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ

ઓર મૂસા (અલૈહિસ્સલામ) મેં ભી જબ કે હમ ને ઉન્હે ફિરઓન કી તરફ રોશન દલીલ દે કર રસૂલ બના કર

مُّبِينٍ ﴿۳۸﴾ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَجَرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿۳۹﴾

ભેજા. ફિર ઉસ ને અરકાને સલ્તનત કે બલ પર રૂગરદાની કી ઓર બોલા કે યે તો જાદૂગર યા મજનૂન હૈ.

فَأَخَذْنَاهُ وَجُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿۴۰﴾

ફિર હમ ને ઉસ કો ઓર ઉસ કે લશકરો કો પકડ લિયા, ફિર હમ ને ઉન કો ફેંક દિયા સમન્દર મેં જબ કે ઉન પર ઈલ્લામ

وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿۴۱﴾

રખા ગયા. ઓર કૌમે આદ મેં જબ કે હમ ને ઉન પર બાંજ કરને વાલી હવા ભેજી.

مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴿۴۲﴾

જિસ ચીઝ પર ભી વો ગુઝરતી થી ઉસે ગલી હુઈ ચીઝ કે માનિન્દ કર છોડતી થી.

وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۴۳﴾ فَعْتَوْا

ઓર કૌમે સમૂદ મેં જબ ઉન સે કહા ગયા કે તુમ એક વકત તક મઝે ઉડા લો. ફિર ઉન્હોં ને

عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿۴۴﴾

અપને રબ કે હુકમ સે સરકશી કી, ફિર ઉન કો કડક ને પકડ લિયા ઈસ હાલ મેં કે વો દેખ રહે થે.

فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُتَصِرِينَ ﴿۲۷﴾

झिर उन्हे उठने की भी ताकत नहीं थी और वो बटला भी नहीं ले सकते थे।

وَقَوْمٍ نُّوحٍ مِّنْ قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿۲۸﴾

और कौमों नूह को उस से पेड़ले. यकीनन वो नाकरमान कौम थी।

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿۲۹﴾ وَالْأَرْضَ

और आस्मान को हम ने कुदरत से बनाया है, और यकीनन हम ही वसीअ करने वाले हैं. और जमीन को

فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمُهْدُونَ ﴿۳۰﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ

हम ने बिछाया, झिर हम कितना अच्छा बिछाने वाले हैं? और हर चीज के

خَالِقِنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۳۱﴾ فَفِرُّوْا

जोडे हम ने पैदा किये ताके तुम नसीहत डासिल करो. झिर तुम अल्लाह की तरफ

إِلَى اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۳۲﴾ وَلَا تَجْعَلُوا

भागो. यकीनन मैं तुम्हारे लिये उस की तरफ से साफ़ साफ़ डराने वाला हूँ. और तुम अल्लाह के साथ

مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۖ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۳۳﴾ كَذَلِكَ

दूसरे माबूद मत बनाओ. यकीनन मैं तुम्हारे लिये उस की तरफ से साफ़ साफ़ डराने वाला हूँ. इसी तरह

مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ

उन लोगों के पास भी जो उन से पेड़ले थे कोई रसूल नहीं आया, मगर उन्हों ने कहा के ये तो जादूगर है

أَوْ مَجْنُونٌ ﴿۳۴﴾ اتَّوَصَّوْا بِهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿۳۵﴾

या पागल है. क्या उन्हों ने अक दूसरे को इस की वसीयत कर रभी है? बल्के ये शरीर कौम है. तो

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴿۳۶﴾ وَذَكَرْ فَإِنَّ الدِّكْرَى

आप उन से अैराज कीजिये, अब आप पर कोई मलामत नहीं. और आप नसीहत करते रहिये, यकीनन नसीहत

تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۷﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ

ईमान वालों को नफ़ा देगी. और मैं ने जिन्नात और ईन्सान पैदा नहीं किये मगर इस लिये

إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿۳۸﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ

ताके वो मेरी ईबादत करें. मैं उन से रोजी नहीं याहता और न मैं ये याहता हूँ

أَنْ يُطْعَمُونَ ﴿۳۹﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْبَتِينِ ﴿۴۰﴾

के वो मुजे पाना दें. यकीनन अल्लाह ही रोजी देने वाला है, वो मजबूत कुव्वत वाला है।

فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ

ફિર ઉન લોગોં કે લિયે જો ઝાલિમ હૈં બારી હૈં ઉન કે સાથિયોં કી બારી કી તરહ,

فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿۵۹﴾ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا

ફિર વો જલ્દી ન મયાઓં. ફિર હલાકત હૈં કાફિરોં કે લિયે

مَنْ يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿۶۰﴾

ઉન કે ઉસ દિન સે જિસ સે ઉન્હેં ડરાયા જા રહા હૈં.

۲ رُوعَاتُهَا ۲ (۵۹) سُورَةُ الظُّورِ مَكِّيَّةٌ (۷۹) ۲۹ آيَاتُهَا ۲

और २ रुकूअ हँ सूरअे तूर मक्का में नाजिल हुँउ उस में ४८ आयतें हँ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

પણહતા હું અલ્લાહ કા નામ લે કર જો બડા મેહરબાન, નિહાયત રહમ વાલા હૈં

وَالظُّورِ ﴿۱﴾ وَكُتِبَ مَسْطُورٍ ﴿۲﴾ فِي رَقٍ مَنشُورٍ ﴿۳﴾

તૂર કી કસમ. ઓર કિતાબ કી કસમ જો લિખી હુઈ હૈં. જો ફૈલાએ હુવે કાગઝ મેં હૈં.

وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ﴿۴﴾ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ﴿۵﴾ وَالْبَحْرِ

બયતે મઅમૂર કી કસમ. બુલન્દ છત કી કસમ. ઓર દરયાએ શોર કી કસમ,

الْمَسْجُورِ ﴿۶﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ﴿۷﴾ مَا لَهُ

જો પુર હૈં. યકીનન તેરે રબ કા અઝાબ ઝરૂર વાકેઅ હોને વાલા હૈં. ઉસ કો

مَنْ دَافِعٌ ﴿۸﴾ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ﴿۹﴾ وَتَسِيرُ

કોઈ દફા નહીં કર સકતા. જિસ દિન આસ્માન કપકપા કર લરઝેગા. ઓર પહાડ

الْجِبَالُ سَيْرًا ﴿۱۰﴾ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿۱۱﴾

ચલને લગેગે. ફિર ઉસ દિન જુઠલાને વાલોં કે લિયે હલાકત હૈં.

الَّذِينَ هُمْ فِي حَوْضٍ يَلْعَبُونَ ﴿۱۲﴾ يَوْمَ يُدْعَوْنَ

ઉન કે લિયે જો દિલ્લગી મેં ખેલ રહે હૈં. જિસ દિન ઉન્હેં ઘક્કે

إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً ﴿۱۳﴾ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا

દે કર જહન્નમ કી આગ કી તરફ લાયા જાએગા. (કહા જાએગા કે) યે વો આગ હૈં જિસ કો તુમ

تُكذَّبُونَ ﴿۱۴﴾ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿۱۵﴾

જુઠલાતે થે. કયા યે જાહુ હૈં યા તુમ દેખતે નહીં હો?

إِصْلَوهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ ۗ

تुम उस में टाबिल हो जाओ, फिर सभ्र करो या सभ्र न करो, तुम पर बराबर है।

إِنَّمَا تُجْرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۷﴾ إِنَّ الْمَتَّقِينَ

तुम्हें सजा दी जायेगी उन्ही आमाँल की जो तुम करते थे। यकीनन मुत्तकी लोग

فِي جَنَّتٍ وَنَعِيمٍ ﴿۱۸﴾ فَكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ۗ وَوَقَّعَهُم

जन्नतों में और नेअमतों में होंगे। मजे कर रहे होंगे उस में जो उन को उन के रब ने दिया है। और उन के

رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿۱۸﴾ كَلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا

रब ने उन को आग के अजाब से बचा लिया है। (कहा जायेगा के) तुम भाओ पिओ, मुबारकबाही है उन

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۹﴾ مُتَّكِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۗ

आमाँल की वजह से जो तुम करते थे। वो लोग सड़ ब सड़ रभे हुवे तप्तों पर टेक लगाये हुवे होंगे।

وَزَوْجَهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿۲۰﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ

और हम उन का जुबसूरत बडी आंभों वाली हूरो के साथ निकाह करायेगे। और वो जो ईमान लाये और उन की

ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ

जुररीयत ने ईमान में उन की पैरवी की तो हम उन के साथ उन की जुररीयत को मिला देंगे, और हम उन के अमल में

مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۗ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ﴿۲۱﴾

से कुछ भी उन के लिये कम नही करेगे। हर शप्स रुका रहेगा उन आमाँल की वजह से जो उस ने किये।

وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿۲۲﴾

और हम उन्हें बराबर देते रहेंगे मेवे और उन का मरगूब गोशत।

يَتَنَارَعُونَ فِيهَا كَأَسَا لَا لَعُوَ فِيهَا وَلَا تَأْتِيهِمْ ﴿۲۳﴾

अक दूसरे से छीना जटी करेगे वहां ऐसे प्याले में जिस में न बकना है और न गुनाह की बातें हैं।

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ﴿۲۴﴾

और उन पर उन के ऐसे भिदमतगार लडके यक्कर लगाते रहेंगे गोया वो छुपाये हुवे मोती हैं।

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿۲۵﴾ قَالُوا

और उन में से अक दूसरे की तरफ मुतवज्जह हो कर पूछेंगे। कहेंगे के

إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿۲۶﴾ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا

हम इस से पेडले हमारे घर वालों में डरते रहेते थे। फिर अल्लाह ने हम पर अहसान इरमाया

وَوَقْنَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿۱۷﴾ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ ۗ

और हमें आग के अजाब से बचा लिया। हम इस से पहले उसी को पुकारते थे।

إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴿۱۸﴾ فَذَكَرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ

यकीनन वो बुरा करने वाला, बड़ा मेहरबान है। इस लिये आप नसीहत कीजिये, फिर आप अपने रब की नेअमत

رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿۱۹﴾ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ

की वजह से न काहिन हो और न पागल हो। क्या ये लोग कहते हैं के ये तो शायर है?

تَتَرَبَّصُّ بِهِ رَيْبَ الْبُنُونِ ﴿۲۰﴾ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي

हम इस के मुतअदिलक भौत के छान्छे के मुत्तअरि हैं। आप इरमा दीजिये के तुम मुत्तअरि रहो, फिर मैं भी

مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ﴿۲۱﴾ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخْلَامُهُمْ

तुम्हारे साथे धन्तअर करने वालों में से हूँ। क्या उन को उन की अकलें इस का हुकम

بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ﴿۲۲﴾ أَمْ يَقُولُونَ تَقْوَلَهُ ۗ

देती हैं या ये लोग शरीर ही हैं? क्या वो कहते हैं के इस नबी ने ये कुर्आन जुद कहा है?

بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۲۳﴾ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلَهُ إِن كَانُوا

बल्के ये धिमान नहीं लाते। तो उनहें यादिये के उस जैसा कोई कलाम ले आओ अगर ये

صَادِقِينَ ﴿۲۴﴾ أَمْ خَلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿۲۵﴾

सत्ये हैं। क्या ये बगैर किसी चीज के जुद पैदा हो गये या ये जुद पैदा करने वाले हैं?

أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۗ بَلْ لَا يُؤْقِنُونَ ﴿۲۶﴾

क्या उनहों ने आस्मानों और जमीन को पैदा किया है? बल्के ये यकीन नहीं रफते।

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصِيطِرُونَ ﴿۲۷﴾

या उन के पास तेरे रफ के भजाने हैं या ये छान्छे हैं?

أَمْ لَهُمْ سُلْمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ۗ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ

या उन के पास कोई सीण्डी है जिस में (यण्द कर) वो सुन लेते हैं? तो उन को यादिये के उन का सुनने वाला

بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ﴿۲۸﴾ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبُنُونَ ﴿۲۹﴾

कोई रोशन हलील ले आओ। क्या अल्लाह के लिये भेटियां और तुम्हारे लिये भेटे हैं?

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَّعْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴿۳۰﴾ أَمْ

या आप उन से मुआवजे का सवाल करते हैं के ये उस तावान में हबे ज़ा रहे हैं? क्या

عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ﴿۲۱﴾ أَمْ يُرِيدُونَ

उन के पास गैब का एल्म है के ये लिप लेते हैं? या ये मकर करना

كَيْدًا ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴿۲۲﴾ أَمْ لَهُمْ

याहते हैं? फिर जो काफिर हैं उन्ही के भिलाफ तदबीर की जायेगी. क्या उन का

إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ ۖ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۲۳﴾

कोई माबूद है अल्लाह के सिवा? अल्लाह पाक है उन से जिन्हें वो शरीक बता रहे हैं.

وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ

और अगर ये आस्मान से गिरता हुआ टुकड़ा देष लें, तो कहेंगे के ये तो तेड भ तेड

مَّرْكُومٌ ﴿۲۴﴾ فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ

भादल हैं. फिर आप उन्हें छोड दीजिये यहां तक के वो मिलें अपने उस दिन से जिस में उन पर

يُصْعَقُونَ ﴿۲۵﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا

साधकड पडेगी. जिस दिन उन की मक्कारी उन के कुछ काम नहीं आयेगी

وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۲۶﴾ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا

और उन की नुस्तरत नहीं की जायेगी. और धन जालिमों के लिये धस के अलावा भी

دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۷﴾ وَأَصْبِرْ

अजाब होगा, लेकिन उन में से अकसर जानते नहीं. और आप सध्र कीजिये अपने रब के हुकम

لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ

की वजह से, फिर जरूर आप हमारी निगाहों के सामने हो और आप अपने रब की उम्ह के साथ तस्बीह कीजिये जिस

تَقُومُ ﴿۲۸﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ﴿۲۹﴾

वक्त आप उठते हो. और रात में भी उस की तस्बीह कीजिये और सितारों के गुडूब होने पर भी.

رُؤُوسِهَا ۳

(۵۳) سُورَةُ النَّجْمِ مَكِّيَّةٌ (۲۳)

آيَاتُهَا ۶۲

और ३ रुकूअ हैं

सूरअे नजम मक्का में नाजिल हुध

उस में ६२ आयतें हैं

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

पण्डता हुं अल्लाह का नाम ले कर जो बडा मेहरबान, निडायत रहम वाला है

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۝ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۝

सितारे की कसम जब वो गिरे. के तुम्हारे साथी (सद्वल्लाहु अलयाहि व सद्वलम) न भूले हैं, न भटके हैं.

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۙ

और वो अपनी प्वाडिश से नहीं बोलते. ये तो सिर्फ वही है जो उन की तरफ वही की जाती है.

عَلَيْهَا شَدِيدُ الْعُقُوبِ ۗ ذُو مِرَّةٍ ۖ فَاسْتَوَىٰ ۖ وَهُوَ

उन को सप्त कुवतों वाले इरिश्ते ने सिखाया है. जो ताकतवर है, फिर वो पूरा नमूदार हुआ. इस डाल में

بِالْأَفْقِ الْأَعْلَىٰ ۗ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۖ فَكَانَ قَابَ

के वो आस्मान के बुलन्द किनारे में था. फिर वो करीब आया, फिर नीचे उतरा, फिर दो कमान के बराबर या

قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۖ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۙ

उस से भी कम फासला रह गया. फिर अल्लाह ने अपने बन्दे की तरफ वही की जो उस ने वही की.

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۗ أَفَتُمَرُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ۙ

दिल ने जूठ नहीं बोला जो उस ने देखा. क्या फिर तुम उन से जघडते हो उस पर जो वो देख रहे हैं?

وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزَّلَةً أُخْرَىٰ ۖ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۙ

यकीनन उनको ने एक दूसरी भरतभा भी इस (इरिश्ते) को देखा है. सिहरतुल मुन्तहा के पास.

عِنْدَهَا جَنَّةُ الْبَاوَىٰ ۗ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ۙ

जिस के पास जन्नतुल मअवा है. जब के सिहरतुल मुन्तहा को ढांप रही थीं वो यीं जो उस को ढांप रही थीं.

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۗ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ

निगाहे मुबारक न डटी, न (भरघ से) आगे बण्डी. यकीनन आप ने अपने रब की बडी निशानियों में से

الْكُبْرَىٰ ۗ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۙ وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةَ

देखा. क्या फिर तुम ने देखा लात और उजजा और तीसरे मनात

الْأُخْرَىٰ ۗ أَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ الْإِنثَىٰ ۙ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ

को? क्या तुम्हारे लिये भेटे और अल्लाह के लिये भेटियां? यकीनन ये तो बडोत भुरी

ضَيِّزَىٰ ۙ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْبَاءٌ سَمِيَّتُمُوهَا

तकसीम है. ये तो सिर्फ नाम हैं जो तुम ने और तुम्हारे भाप दादाओं ने

أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۗ إِنْ يَتَّبِعُونَ

रब रभे हैं, जिन पर अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी. वो तो सिर्फ गुमान

إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ۗ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ

के पीछे यलते हैं और उस के पीछे जिस की नईस प्वाडिश करते हैं. और यकीनन उन के पास उन के रब

رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ ۲۲ أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَسَّى ۲۳ فَلْيَلِكِ

डी की तरफ़ से छिदायत आई है. क्या इन्सान को मिलता है जो भी वो चाहे? फिर अल्लाह की मिल्क

الْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ۲۴ وَكَمْ مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ

है आभिरत भी और पेडली हुन्या भी. और कितने इरिशते हैं आस्मानों में के

لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ

जिन की सिफ़ारिश कुछ भी काम नहीं आ सकती मगर इस के बाद के अल्लाह इजाजत दे

لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ ۲۵ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

जिस के लिये चाहे और पसन्द करे. यकीनन जो आभिरत पर इमान नहीं रखते

لَيْسَتُنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْبِيَةَ الْإِنثَىٰ ۲۶ وَمَا لَهُمْ بِهِ

वो इरिशतों को लडकियों का नाम देते हैं. डालांके उन के पास उस की कोई

مِّنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ

दलील नहीं. वो सिर्फ़ गुमान के पीछे चलते हैं. और गुमान डक

لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۲۷ فَأَعْرِضْ عَنْ مَّن تَوَلَّىٰ

के मुकाबले में कुछ भी काम नहीं देता. फिर आप उस से अंतराज कीजिये जो डमारे जिक से

عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۲۸ ذَلِكَ

मुंड मोडता है और जो सिर्फ़ हुन्यवी जिन्दगी को चाडता है. ये

مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ

उन का मडलगे इल्म है. यकीनन तेरा रब वो भूष जानता है उस को जो अल्लाह के

عَنْ سَبِيلِهِ ۲۹ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن اهْتَدَىٰ ۳۰ وَبِاللَّهِ

रास्ते से लटक गया और वो भूष जानता है उस को भी जिस ने छिदायत पाई. और अल्लाह के लिये

مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۳۱ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا

वो तमाम चीजें हैं जो आस्मानों में हैं और जो जमीन में हैं. ताके अल्लाह सजा दे उन को जिन्हों ने

بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ ۳۲ الَّذِينَ

भुरे आमाल किये और अल्लाह अरखण भदला दे उन को जिन्हों ने नेकियां कीं. उन को जो

يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ إِثْمِهِمُ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ۳۳

भडे गुनाहों से और भेडयाई के कामों से बचते हैं, सिवाये छोटे गुनाह के.

إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْبُعْفِرَةِ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ

यकीनन तेरा रब वसीअ मगफ़िरत वाला है. वो तुम्हें भूब जानता है जब के उस ने तुम्हें

مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ۗ

जमीन से पैदा किया और जब तुम अपनी मां के पेटों में जनीन थे.

فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِبَيْنِ أُمَّتَيْ ۖ أَفَرَأَيْتَ

किर तुम अपने नुफ़ूस को मुजक़्का मत बताओ. वो भूब जानता है उस को जो मुत्तकी है. क्या आप ने

الَّذِي تَوَلَّى ۖ وَاعْطَى قَلِيلًا وَأَكْثَى ۖ أَعِنْدَهُ

देषा उस शप्स को जिस ने औराज किया? और उस ने थोडा सा दिया और छथ रोक लिया? क्या उस के पास

عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ۖ أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ

गैब का धल्म है, किर वो देष रखा है? क्या उसे भबर नहीं दी गध उन थीजों की जो मूस़ा (अलैहिस्सलाम) के सडीक़ों में

مُوسَى ۖ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ۖ إِلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ

हैं? और धब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के सडीक़ों में हैं, जिन्हों ने (रिसालत का डक) अदा कर दिया. ये के

وَوِزْرَ أُخْرَى ۖ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ۖ

कोध भोज उठाने वाला दूसरे का भोज नहीं उठायेगा. और ये के ध-सान को वडी मिलेगा जो उस ने सध की.

وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ۖ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَى ۖ

और उस की सध अनकरीब देषी ज़ायेगी. किर उसे पूरा पूरा भदला दिया ज़ायेगा.

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ ۖ وَأَنَّ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ۖ

और ये के तेरे रब की तरफ़ पडोयना है. और वडी उंसाता है और वडी रुलाता है.

وَأَنَّ هُوَ أَمَاتَ وَاحْيَا ۖ وَأَنَّ هُوَ خَلَقَ الزُّوجَيْنِ

और वडी मौत देता है और वडी जिन्दगी देता है. और उसी ने जोडे पैदा किये,

الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۖ مِنْ نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ۖ وَأَنَّ عَلَيْهِ

मर्द को ली और औरत को ली. अक नुफ़े से जो ङाला जाता है. और ये के उसी के जिम्मे

النَّشْأَةَ الْاٰخِرَىٰ ۖ وَأَنَّ هُوَ أَعْنَىٰ وَاقْنَىٰ ۖ وَأَنَّ

दूसरी मरतबा पैदा करना है. और वडी गनी करता है और वडी मुफ़लिस बनाता है. और वो

هُوَ رَبُّ الشَّعْرَىٰ ۖ وَأَنَّ أهلكَ عَادًا ۖ وَالْأُولَىٰ ۖ

शिअरा का रब है. और उसी ने पेडले आद को डलाक किया. और समूद को

وَسَمُّودًا فَمَا أَتْبَىٰ ۝ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ

उलाक किया, फिर किसी को बाकी नहीं छोडा. और उस ने इस से पेडले कौमे नूड को उलाक किया. यकीनन वो

كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ۝ وَالْبُوتَيْنِكَ أَهْوَىٰ ۝

सभ से ज्यादा गुल्म करने वाले और सभ से ज्यादा शरीर थे. और उसी ने उलट दी जाने वाली बस्ती को पटप दिया.

فَعَشَمَهَا مَا عَشَىٰ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ۝

फिर उस को ढांपा (उन पथरोने) जिस ने उन को ढांपा. फिर तू अपने रब की नेअमतों में से किस किस नेअमत पर जघडेगा?

هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذِرِ الْأُولَىٰ ۝ أَرْفَتِ الْأَرْفَةَ ۝

ये पेडले डराने वालों में से अेक डराने वाला है. करीब आने वाली करीब आ पडोंगी.

لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ۝ أَفَمِنَ هَذَا

उस को अल्लाह के सिवा कोई दूर नहीं कर सकता. क्या फिर इस

الْحَدِيثِ تَعَجَّبُونَ ۝ وَ تَضْحَكُونَ وَلَا تَتَّبِعُونَ ۝

भात से तुम तअज्जुब करते हो? और हंसते हो और रोते नहीं हो?

وَأَنْتُمْ سَمِدُونَ ۝ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ۝

और तकभुर करते हो? तो अल्लाह को सज्द करो और उस की ईबादत करो.

إِيَّاهَا ۵۵ (۵۴) سُورَةُ الْفَجْرِ مَكِّيَّةٌ (۳۷) رُوعًا لَهَا ۳

उस में पप आयतें हैं और उ रुकूअ हैं सूअे कमर मक्का में नाजिल हुई

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

पणडता हुं अल्लाह का नाम ले कर जो बडा मेहरबान, निडायत रहम वाला है

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ۝ وَأَنْشَقَّ الْقَبْرُ ۝ وَإِن يَرَوْا آيَةً

क्यामत करीब आ गई और यांइ हो टुकडे हो गया. और अगर काफिर कोई निशानी देभ लें

يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمَرٌّ ۝ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا

तो औराज करते हैं और केडते हैं के ये जादू है जो डमेशा से यला आ रहा है. और उनडों ने जूठलाया और अपनी

أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقَرٌّ ۝ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ

ज्वाडिश के पीछे यले और डर अमर ठेडेरने वाला है. यकीनन उन के पास ईत्नी भभरें आ चुकी हैं

الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُرْدَجَرٌ ۝ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا

जिन में (काई) ईध्रत है. ईन्तिडार्इ दरजे की डिकमत है, फिर डराने

السَّجْدَةُ ۱۲

تُعْنِ التُّدْرَةَ ۖ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ

वाले भी कुछ काम नहीं आये. इस लिये आप उन से औराज कीजिये, जिस दिन अक पुकारने वाला नागवार थीज की

إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكْرٍ ۖ خُشِعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ

तरफ़ पुकारेगा. उन की नज़रें ज़ुकी हुई होंगी, वो क़ब्रों से निकल रहे

مِنَ الْجِدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ۖ مَهْطَعِينَ

होंगे गोया के वो कैली हुई टीडियां हैं. वो तेज़ दौड़ रहे होंगे

إِلَى الدَّاعِ ۖ يَقُولُ الْكٰفِرُونَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ۝ كَذَّبَتْ

बुलाने वाले की जानिब. काफ़िर लोग कहेंगे के ये तो बड़ा सप्त दिन है. उन

قَبْلَهُمْ قَوْمٌ نُّوحٌ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ

से पेडले कौमे नूह ने भी ज़ुठलाया, फिर उन्हों ने उमारे बन्दे को ज़ुठलाया और बोले ये तो मजून है और उस को

وَازْدَجَرَ ۝ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ۝

जिण्डक दिया गया. फिर उस ने अपने रब को पुकारा के मैं मगलूब हूँ, तू मेरी नुस्सत इरमा.

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَرٍ ۝ وَفَجَّرْنَا

फ़िर उम ने आस्मान के दरवाज़े लगातार भरसने वाले पानी के साथ षोल दिये. और उम ने

الْأَرْضَ عَيُْونًا فَانْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ۝

ज़मीन से यश्मे ज़री कर दिये, फिर पानी अक हुकम पर मिल गया जो पेडले से मुतअथ्यन कर दिया गया था.

وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْأَوَّاحِ وَدُسِّرَ ۖ تَجَرَّىٰ بِأَعْيُنِنَا

और उम ने नूह (अलैडिस्सलाम) को तफ़्तियोवाली और कीलोवाली क़शती पर सवार करा दिया. जोयल रखी थी उमारी निगाहोंके

جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرًا ۝ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً

सामने. उस के इन्तिकाम के लिये जिस की नाशुकरी की गई. यकीनन उम ने उस को अक निशानी के तौर पर छोड दिया,

فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ ۝ فَكَيْفَ كَانَ عَدَاؤِي وَنُذْرِي ۝ وَلَقَدْ

क्या फिर कोई नसीहत ड़ासिल करने वाला है? फिर मेरा अज़ाब और मेरा डराना कैसा रहा? यकीनन

يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ ۝ كَذَّبَتْ

उम ने इस कुर्आन को याद करने के लिये आसान किया, तो क्या है कोई याद करने वाला? कौमे आद

عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَدَاؤِي وَنُذْرِي ۝ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ

ने ज़ुठलाया, फिर मेरा अज़ाब और मेरा डराना कैसा रहा? यकीनन उम ने उन पर

رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ۖ تَنْزِعُ

तूझानी ह-डी उवा लगातार नडूसत वाले दिन में भेज. जो ध-सानों

النَّاسِ ۚ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ ۖ فَكَيْفَ كَانَ

को (उचक) कर ईक रडी थी गोया के वो ध-सान उभडे डुवे भजूर के तने हें. फिर मेरा अजाभ

عَدَابِي ۖ وَنُذِرٌ ۖ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ

और मेरा डराना कैसा रडा? यकीनन डम ने धस कुर्आन को डिक्कत के लिये (नसीहत के लिये) आसान किया, फिर क्या है को ध

فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ ۖ كَذَّبْتَ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ۖ فَقَالُوا ابْشِرْنَا

डिक्कत करने वाला (नसीहत डसिल करने वाला)? कौमे समूह ने डराने वालों को जूठलाया. फिर उन्हों ने कडा के

مِنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ ۚ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ۖ

क्या डम में से अेक ध-सान के डम पीछे चलें? यकीनन डम तभ तो गुमराडी और दीवानगी में डोंगे.

ءَأَلْقَى الذِّكْرَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ ۗ

क्या डमारे दरमियान में से धसी पर ये ठिक डाला गया? भडके ये तो जूठा है, अकडने वाला है.

سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِّنَ الْكَذَّابِ الْأَشْرِ ۖ إِنَّا مُرْسِلُونَ

जल्ड डी कल को ये ज्ञान लेंगे के कौन जूठा, अकडने वाला है. डम गिंटनी उन के

النَّاقَةَ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ۖ وَنَبَّيْنَهُمْ

धमिडान के लिये भेजने वाले हें, धस लिये आप उन के भुतअद्विक भुतजिर रडिये और सभ्र कीजिये. और उन को

أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ۖ كُلُّ شَرِبٍ فَحْتَضِرٌ ۖ فَنادُوا

भभर हे दीजिये के पानी उन के दरमियान तकसीम है. डर पीने की डारी पर डजिर डोना है. पस उन्हों ने

صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عَدَابِي

अपने साथी को पुकारा, फिर वो तलवार ले कर आया, फिर उस ने गिंटनी के पैर काट डिये. फिर मेरा अजाभ और डराना

وَ نُذِرٌ ۖ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا

कैसा रडा? यकीनन डम ने उन पर अेक डी यीभ को भेजा, फिर वो डाण

كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ۖ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ

के सूभे भूसे की तरड डो गअे. यकीनन डम ने धस कुर्आन को नसीहत (याह) के लिये आसान किया,

فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ ۖ كَذَّبْتَ قَوْمٌ لُّوطُ ۖ بِالنُّذُرِ ۖ

फिर क्या है को ध नसीहत डसिल (याह) करने वाला? कौमे लूत ने डराने वालों को जूठलाया.

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ ۖ نَجَّيْنَاهُمْ

यकीनन उम ने उन पर पथर भरसाने वाली तेज उवा क अजाब भेष, मगर लूत (अलैहिस्सलाम) के मानने वालों पर. जिन को

بَسَحْرٍ ۚ تَعْمَةٌ مِّنْ عِنْدِنَا ۖ كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ

उम ने नजात दी रात के पिछले पेर से उमारी तरफ से नेअमत के तौर पर. इसी तरह उम भदला देते हैं उस को जो

شَكَرَ ۖ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ۝

शुक्रगुजार होता है. यकीनन उनको ने उन को उमारी पकड से डराया, फिर उनको ने डराने वालों के बारे में शक किया.

وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ صَيْفِهِ فَطَسَّنَا أَعْيُنَهُمْ فَذَوْقُوا

और लूत (अलैहिस्सलाम) को झुसलाया उनको ने उन के मोहमानों से, फिर उम ने उन की आंभों को भेट दिया, फिर तुम

عَذَابِي وَنُذُرِي ۚ وَلَقَدْ صَبَّبْهُمْ بِكُرَّةٍ عَذَابٍ

मेरा अजाब यमो और मेरे डराने को यमो. यकीनन उन के पास सुभु के वक्त दार्धमी अजाब आ युका सूरज

مُسْتَقَرًّا ۚ فَذَوْقُوا عَذَابِي وَنُذُرِي ۚ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا

निकलते हुवे. फिर मेरे अजाब को और मेरे डराने को यमो. यकीनन उम ने

الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ۚ وَلَقَدْ

कुर्आन को डिक्ठ के लिये आसान किया, फिर क्या है कोई डिक्ठ करने वाला? यकीनन

جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النَّذُرُ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا

आले फिरऔन के पास भी डराने वाले आये. जिनको ने उमारी तमाम आयतों को जुठलाया,

فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ ۚ الْفَارِكُمُ خَيْرٌ

फिर उम ने उन को अेक कुदरत वाले जबरदस्त के पकडने की तरह पकड लिया. क्या तुम्हारे कुदर उन लोगों से भेडतर

مِّنْ أَوْلِيَّكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ۚ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ

हैं या तुम्हारे लिये किताभों में भराअत है? या ये केडते हैं के उम एकडे हैं,

جَمِيعٌ مُّنْتَصِرٌ ۚ سَيُهْرَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ۝

काम्याब हो जाअेंगे? अनकरीब उन एकडे होने वालों को शिकस्त दी जाअेगी और ये पुशत डेर कर त्मागेंगे.

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذَىٰ وَأَمْرٌ ۚ

बल्के कयामत उन के वादे का वक्त है और कयामत बडोत जयादा भौइनाक और बडी कडवी है.

إِنَّ الْمَجْرِمِينَ فِي صَلِّ وَسَلِّ وَسَلِّ ۚ يَوْمَ يُسْحَبُونَ

यकीनन मुजरिम गुमराडी और आग में डोंगे. जिस दिन उन को

۷۳۹

۷۳۹

فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ۖ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿۳۸﴾ إِنَّا

आग में उन के चेहरों के बल घसीटा जायेगा. (कडा जायेगा के) तुम होठभ का अठाभ यणो. यकीनन डम

كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿۳۹﴾ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ

ने डर थील को भिकदार से पैदा किया है. और डमारा डुकम नडीं मगर अक डी भरतभा

كَلْبَحٍ بِالْبَصْرِ ﴿۴۰﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ

आंभ के पलक जपकने की तरड. यकीनन डम ने तुम्हारे डममस्लकों को डलाक किया,

فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ ﴿۴۱﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿۴۲﴾ وَكُلُّ

डिर क्या है कोरु नसीडत डसिल करने वाला? और डर थील जो उन्डों ने की डकरतों में लिभी डुई है. और डर

صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ﴿۴۳﴾ إِنَّ الْيَتِيمَ فِي جَنَّتٍ

छोटी और बडी डरकत लिभी डुई है. यकीनन मुत्तकी लोग जन्तों और नेडरों में

وَ نَهْرٍ ﴿۴۴﴾ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿۴۵﴾

डोंगे. सर्याई की जगा में डोंगे कुडरत वाले बाडशाड के पास.

الْبَيْتِهَا ۴۸ (۵۵) سُورَةُ الرَّحْمٰنِ اِمْرًا زَيْتًا (۹۷) رُكُوٰتُهَا ۳

और ३ रुकूअ हैं

सूरअे रडमान महीना में नाजिल डुई

उस में ७८ आयतें हैं

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

पणडता डुं अड्लाड का नाम ले कर जो बडा मेडरभान, निडायत रडम वाला है

الرَّحْمٰنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ

रडमान ने कुर्आन की तालीम दी. उस ने ईन्सान को पैदा किया. उस ने

الْبَيَانَ ۝ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝ وَالنَّجْمُ

उसे भोलना सिभाया. यांड और सूरज अक डिसाभ से यल रडे हैं. और भेल और

وَ الشَّجَرُ يَسْجُدْنَ ۝ وَالسَّمَاءُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝

डरपुत अड्लाड को सजडा करते हैं. और उस ने आस्मान भुलन्ड किया और उस ने तराजू रभ दिया.

اِلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ

(डुकम दिया) के तुम तोलने में जयाडती मत करो. और ईन्साड के साथ डीक तोला करो

وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝ وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاِنَامِ ۝

और तोलने में कम कर के मत डो. और उस ने मण्डूक के लिये जमीन बनाई.

فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۝ وَالْحَبُّ

جिस में मेवे हैं और भजूर हैं गिलाफ़ वाले. और अनाज है (भूसे वाला

ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

और भूशुभदार झूल हैं. फिर (अे ई-सानो और जिन्नात!) तुम अपने रब की नेअमतों में से किस किस

تُكذِّبِينَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۝

नेअमत को जूठलाओगे? उस ने ई-सान को पैदा किया दीकरी की तरह बनभनाती मिट्टी से. और उस ने

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ

जिन्नात को पैदा किया आग की लपट से. फिर (अे ई-सानो और जिन्नात!) तुम अपने रब की

رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ۝ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ۝

नेअमतों में से किस किस नेअमत को जूठलाओगे? वो दोनो मशरिक का रब है और दोनो मगरिब का रब है. फिर

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ۝ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ

(अे ई-सानो और जिन्नात!) तुम अपने रब की नेअमतों में से किस किस नेअमत को जूठलाओगे? उस ने दो समन्दर मिला कर यलाये

يَلْتَقِينَ ۝ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِينَ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ

जो बालम मिलते हैं. छलाके उन दोनो के दरमियान में अेक आड है के अेक दूसरे से तजवुज नहीं करते. फिर (अे ई-सानो और

رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ۝ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ۝

जिन्नात!) तुम अपने रब की नेअमतों में से किस किस नेअमत को जूठलाओगे? उन दोनो से निकलते हैं मोती और मूंगे.

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ۝ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ

फिर (अे ई-सानो और जिन्नात!) तुम अपने रब की नेअमतों में से किस किस नेअमत को जूठलाओगे? और उस के हैं समन्दर

فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ۝

में पछाडो जैसे उंचे जडाज. फिर (अे ई-सानो और जिन्नात!) तुम अपने रब की नेअमतों में से किस किस नेअमत को

كُلٌّ مِّنْ عَلَيْهَا فَأِنَّ ۝ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ

जूठलाओगे? डर वो चीज जो जमीन पर है इना डोने वाली है. और तेरे अजमत और ईजजत वाले

ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

रब का येडरा भाकी रहेगा. फिर (अे ई-सानो और जिन्नात!) तुम अपने रब की नेअमतों में से किस किस नेअमत को

تُكذِّبِينَ ۝ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝

जूठलाओगे? उसी से मांगते हैं वो जो आस्मानों और जमीन में हैं. डर दिन वो अेक शान

كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿٢٦﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٢٧﴾

(डाल) में डोता है. फिर (अे ईन्सानो और जिन्नात!) तुम अपने रब की नेअमतों में से किस किस नेअमत को जूठलाओगे?

سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَيْنِ ﴿٢٨﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

अन्करीब डम तुम्हारे लिये झरिग डोंगे, अे ईन्सानो और जिन्नात की दोनो जमाअतो! फिर (अे ईन्सानो और जिन्नात!) तुम अपने

تُكَذِّبِينَ ﴿٢٩﴾ يَلْعَشْرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ

रब की नेअमतों में से किस किस नेअमत को जूठलाओगे? अे ईन्सानो और जिन्नात की जमाअत! अगर तुम को ये कुहरत है

أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

के आस्मानों और जमीन की डुडूड से कडीं बाडर निकल जाओ, तो तुम सूराभ

فَأَنْفُذُوا ۗ لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ ﴿٣٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ

कर के निकल जाओ. तुम निकल नहीं सकते मगर परवानअे ईजाजत से. फिर (अे ईन्सानो और जिन्नात!) तुम अपने

رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٣١﴾ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوْاِظٌ

रब की नेअमतों में से किस किस नेअमत को जूठलाओगे? तुम्हारे डपर आग का रोशन शोअला और धूवां डोड

مِّن نَّارٍ ةٍ وَنُحَاسٍ فَلَا تَنْتَصِرِنِ ﴿٣٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

जाअेगा. फिर तुम मुकाबला नहीं कर सकोगे. फिर (अे ईन्सानो और जिन्नात!) तुम अपने रब की नेअमतों में से

تُكَذِّبِينَ ﴿٣٣﴾ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً

किस किस नेअमत को जूठलाओगे? फिर जब आस्मान इट पडेगा, तो वो गुलाबी डो जाअेगा तेल की

كَالدِّهَانِ ﴿٣٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٣٥﴾ فَيَوْمَئِذٍ

तलडट की तरड. फिर (अे ईन्सानो और जिन्नात!) तुम अपने रब की नेअमतों में से किस किस नेअमत को जूठलाओगे? फिर डस

لَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ﴿٣٦﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ

डिन डस के गुनाडों के मुतअख्लक सवाल नहीं किया जाअेगा किसी ईन्सान और किसी जिन्न से. फिर (अे ईन्सानो और जिन्नात!) तुम

رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٣٧﴾ يُعْرِفُ الْجُرْمُونَ بِسَيِّئِهِمْ

अपने रब की नेअमतों में से किस किस नेअमत को जूठलाओगे? मुजरिमों को पेडयान लिया जाअेगा डन की अलामतों से,

فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ﴿٣٨﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ

फिर डन्डे पकड जाअेगा पेशानी के बालों और कडमों से. फिर (अे ईन्सानो और जिन्नात!) तुम अपने रब की नेअमतों

رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٣٩﴾ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا

में से किस किस नेअमत को जूठलाओगे? (कड जाअेगा के) ये वो जडन्नम है जिस को मुजरिम

الْبُجْرْمُونَ ﴿۳۳﴾ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَبِيبٍ ﴿۳۴﴾

जुठलाते थे. वो यक्कर लगा रहे होंगे जहन्नम के दरमियान और मौलते हुवे गर्म पानी के दरमियान. फिर

فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تُكذِّبُونَ ﴿۳۵﴾ وَلَمَّا خَافَ مَقَامَ

(अे ई-सानो और जिन्नात!) तुम अपने रब की नेअमतो मे से किस किस नेअमत को जुठलाओगे? और उस शप्स के लिये जो अपने

رَبِّهِ جَثَّتِينَ ﴿۳۶﴾ فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تُكذِّبُونَ ﴿۳۷﴾

रब के सामने भडा डोने से डरे हो जन्ते होंगे. फिर (अे ई-सानो और जिन्नात!) तुम अपने रब की नेअमतो मे से किस किस नेअमत को

ذَوَاتًا أَفْنَانٍ ﴿۳۸﴾ فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تُكذِّبُونَ ﴿۳۹﴾

जुठलाओगे? वो कसीर शाभो वाले होंगे. फिर (अे ई-सानो और जिन्नात!) तुम अपने रब की नेअमतो मे से किस किस नेअमत

فِيهِمَا عَيْنِينَ تَجْرِيْنِ ﴿۴۰﴾ فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ

को जुठलाओगे? उन दोनो मे दो यश्मे चल रहे हें. फिर (अे ई-सानो और जिन्नात!) तुम अपने रब की नेअमतो मे से

تُكذِّبُونَ ﴿۴۱﴾ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجِنِ ﴿۴۲﴾

किस किस नेअमत को जुठलाओगे? उन दोनो मे हर भेवे की दो दो किसमे होंगी. फिर (अे ई-सानो

فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تُكذِّبُونَ ﴿۴۳﴾ مُتَكِيْنٍ عَلَىٰ فَرْشٍ

और जिन्नात!) तुम अपने रब की नेअमतो मे से किस किस नेअमत को जुठलाओगे? वो टेक लगाअे हुवे

بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ۖ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿۴۴﴾

होंगे तप्तो के उपर जिन के अस्तर दभील रेशम के होंगे. और दोनो जन्तो के भेवे करीब लटक रहे होंगे.

فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تُكذِّبُونَ ﴿۴۵﴾ فِيهِنَّ قَصْرَاتُ

फिर (अे ई-सानो और जिन्नात!) तुम अपने रब की नेअमतो मे से किस किस नेअमत को जुठलाओगे? उन मे नीची

الطَّرْفِ ۚ لَمْ يَطْمِئْتْنِ أَنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿۴۶﴾

निगाहो वाली धूरे होंगी, जिन को न किसी ई-सान ने छुवा उन से पेडले और न किसी जिन ने. फिर

فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تُكذِّبُونَ ﴿۴۷﴾ كَاثِرَتِ الْيَاقُوتِ

(अे ई-सानो और जिन्नात!) तुम अपने रब की नेअमतो मे से किस किस नेअमत को जुठलाओगे? गोया के वो धूरे याकूत

وَالْمَرْجَانِ ﴿۴۸﴾ فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تُكذِّبُونَ ﴿۴۹﴾

और मूंगे हें. फिर (अे ई-सानो और जिन्नात!) तुम अपने रब की नेअमतो मे से किस किस नेअमत को जुठलाओगे?

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴿۵۰﴾ فَبِأَيِّ

नेकी का भदला तो सिवाअे नेकी के और क्या होगा? फिर (अे ई-सानो और जिन्नात!)

الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ﴿٦١﴾ وَمِنْ دُونِهِمَا

تुम अपने रब की नेअमतों में से किस किस नेअमत को जुठलाओगे? और उन दोनों जन्तों के अलावा

جَنَّتِينَ ﴿٦٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْذِبِينَ ﴿٦٣﴾

और (बी) दो जन्तों हैं. फिर (अ) ई-सानो और जिन्नात!) तुम अपने रब की नेअमतों में से किस किस नेअमत को जुठलाओगे?

مُدْهَامَّتِينَ ﴿٦٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْذِبِينَ ﴿٦٥﴾

दोनों गेडरे सफ़्त सियाही माईल हैं. फिर (अ) ई-सानो और जिन्नात!) तुम अपने रब की नेअमतों में से किस किस नेअमत को

فِيهِمَا عَيْنِينَ نَضَّاحَتَيْنِ ﴿٦٦﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

जुठलाओगे? उन में उबलते डुवे दो यश्मे हैं. फिर (अ) ई-सानो और जिन्नात!) तुम अपने रब की नेअमतों में से

تُكْذِبِينَ ﴿٦٧﴾ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَانٌ ﴿٦٨﴾

किस किस नेअमत को जुठलाओगे? उन दोनों में मेवे और भजूर हैं और अनार.

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْذِبِينَ ﴿٦٩﴾ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ

फिर (अ) ई-सानो और जिन्नात!) तुम अपने रब की नेअमतों में से किस किस नेअमत को जुठलाओगे? उन में नेक भूषसूरत

حَسَانٌ ﴿٧٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْذِبِينَ ﴿٧١﴾ حُورٌ

औरते हैं. फिर (अ) ई-सानो और जिन्नात!) तुम अपने रब की नेअमतों में से किस किस नेअमत को जुठलाओगे? वो डूरे

مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

हैं जो भैमों में ठेडरी डुई हैं. फिर (अ) ई-सानो और जिन्नात!) तुम अपने रब की नेअमतों में से किस किस

تُكْذِبِينَ ﴿٧٣﴾ لَمْ يَطْمِئْتِنَّ إِسُّ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٧٤﴾

नेअमत को जुठलाओगे? जिन को उन से पेडले किसी ई-सान ने डुवा नहीं और न किसी जिन ने. फिर

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْذِبِينَ ﴿٧٥﴾ مُتَّكِنِينَ

(अ) ई-सानो और जिन्नात!) तुम अपने रब की नेअमतों में से किस किस नेअमत को जुठलाओगे? वो जन्ती टेक

عَلَى رَفْرَفٍ خُضِرٍ وَوَعْبَقَرِيٍّ حَسَانٍ ﴿٧٦﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ

लगाए डुवे डोंगे सफ़्त अज्जभ भूषसूरत मस्नदों पर. फिर (अ) ई-सानो और जिन्नात!) तुम अपने

رَبِّكُمَا تُكْذِبِينَ ﴿٧٧﴾ تَبْرَكَ اسْمُ رَبِّكَ

रब की नेअमतों में से किस किस नेअमत को जुठलाओगे? तेरे जलाल और अजमत

ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٧٨﴾

वा ले र भ क न म भ ड ल भ । भ र क त डी .

رُكُوعَاتُهَا ٣

(٥٦) سُورَةُ الْوَاقِعَةِ مَكِّيَّةٌ (٣٦)

آيَاتُهَا ٩٦

और ३ रुकूअ हैं

सूरअे वाकिआ मक्का में नाजिल हुई

उस में ९६ आयतें हैं

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

पण्डता हुं अल्लाह का नाम ले कर जो भडा मेहरबान, निडायत रहम वाला है

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝ لَيْسَ لَوْفَعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۝

जब वाकेअ होने वाली क्यामत वाकेअ होगी. जिस के वाकेअ होने में कोई जूठ नहीं.

خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۝ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ۝

वो पस्त करने वाली, बुलन्द करने वाली है. जब जमीन लरज उठेगी कपकपाती हुई.

وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا ۝

और पहाड टूट कर रेजा रेजा हो जायेंगे. फिर वो उडता हुवा गुबार बन जायेंगे.

وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ۝ فَاصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ ۝

और तुम तीन जमाअतें बन जाओगे. फिर दायें तरफ वाले,

مَا أَصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ ۝ وَأَصْحَبُ الْمَشْأَمَةِ ۝

दायें तरफ वाले कितने अरथे हैं! और बायें तरफ वाले,

مَا أَصْحَبُ الْمَشْأَمَةِ ۝ وَالسَّيِّقُونَ السَّيِّقُونَ ۝

क्या ही भुरे बायें तरफ वाले! और सभकत करने वाले तो सभकत करने वाले ही हैं.

أُولَئِكَ الْمَقَرَّبُونَ ۝ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۝ ثَلَاثَةٌ

यही मुकर्रबीन हैं. जो जन्नाते नईम में होंगे. वो जयादातर

مِّنَ الْأَوَّلِينَ ۝ وَ قَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ۝

तो अगले लोगों में से होंगे. और पीछे वालों में से थोडे होंगे.

عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ۝ مُتَّكِنِينَ عَلَيْهَا مُتَقَبِّلِينَ ۝

वो जैसे तप्तों पर टेक लगाअे हुवे होंगे, जो सौने के तारों से जुडे हुवे होंगे. वो उन पर टेक लगाअे आमने

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ۝ بِأَكْوَابٍ

सामने बैठे होंगे. उन पर यक्कर लगा रहे होंगे जैसे लडके जो उमेशा लडके ही रहेंगे. प्याले

وَأَبَارِيقَ ۝ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ۝ لَا يُصَدَّعُونَ

और जग और ग्लास ले कर जैसे यश्मे से, जिस से न सर दई

عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ ﴿١٩﴾ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿٢٠﴾

डोगा और न बकना डोगा. और उन के पसन्दीदा भेवे ले कर.

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢١﴾ وَحَوْصِ عَيْنٍ ﴿٢٢﴾

और परिन्दों का गोशत जो उन को भरगूब डो. और बडी आंभों वाली भूबसूरत धूरें डोंगी.

كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ﴿٢٣﴾ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا

छुपाये हुवे भोतियों की तरड. उन के आभाल के भदले में.

يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ لَا يَسْعَوْنَ فِيهَا لَعْوًا وَلَا تَأْتِيًا ﴿٢٥﴾

वो उस जन्नत में न लगव भात सुनेगे और न गुनाड की भात सुनेगे.

إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿٢٦﴾ وَ أَصْحَابُ الْيَمِينِ

भगर अक डी कलाम सुनेगे: अस्सलामु अलयकुम, अस्सलामु अलयकुम. और दार्ड तरङ्ग वाले.

مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٢٧﴾ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿٢٨﴾ وَطَلْحٍ

दार्ड तरङ्ग वाले क्या (भूब) डें! कंटे साङ्ग की डुध डेरियों में, और तेड भ तेड

مَنْصُودٍ ﴿٢٩﴾ وَظِلِّ مَمْدُودٍ ﴿٣٠﴾ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ﴿٣١﴾

रभे डेलों में, और लभभे साअे में, और डेडते हुवे पानी में,

وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿٣٢﴾ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿٣٣﴾

और भकसरत भेवों में डोंगे, जो कभी न भत्त डोंगे, न कभी मुभानअत डोगी.

وَفُرْشٍ مَّرْفُوعَةٍ ﴿٣٤﴾ إِنَّا أَنْشَأْنَهُنَّ إِنْسَاءً ﴿٣٥﴾

और डीये डीये इरशों में डोंगे. डम ने उन धूरों को भास तौर पर बनाया डे.

فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ﴿٣٦﴾ عُرْبًا أَتْرَابًا ﴿٣٧﴾ لِأَصْحَابِ

इर डम ने उन को भाक़िरा, भडोत अयादा प्यार दलाने वाली, डमडम्र बनाया डे. अस्डभे यमीन

الْيَمِينِ ﴿٣٨﴾ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٩﴾ وَ ثُلَّةٌ

के लिये. वो बडी जभाअत अगले डोगों में से डोगी. और बडी जभाअत पिछले डोगों में

مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿٤٠﴾ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ ﴿٤١﴾ مَا أَصْحَابُ

से डोगी. और भाई तरङ्ग वाले. भाई तरङ्ग वाले क्या (डी भुरे)

الشِّمَالِ ﴿٤٢﴾ فِي سَمُومٍ وَ حَبِيمٍ ﴿٤٣﴾ وَظِلِّ مِّن

डें! वो लू में डोंगे और गर्म पानी में डोंगे. और धूरें के साअे में

يَحْمُورٍ ﴿٣٣﴾ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴿٣٣﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا	डोंगे. न ठन्डा डोंगा और न अच्छा डोंगा. इस लिये के वो
قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٣٤﴾ وَكَانُوا يُصْرُونَ	इस से पेडले भुशडाल थे. और बडे गुनाडों पर
عَلَى الْحِنْتِ الْعَظِيمِ ﴿٣٥﴾ وَكَانُوا يَقُولُونَ ۗ أَيُّدَا	इसरार करते थे. और वो केडते थे के क्या जब
مَتْنَا وَكُنَّا تَرَابًا ۗ وَعِظًا مَّا ءَاتَانَا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٣٦﴾	उम मर जाअेंगे और मिट्टी डो जाअेंगे और डडियां डो जाअेंगे तब उम कध्रों से उठाअे जाअेंगे?
أَوَابَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿٣٧﴾ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ	उम ली और उमारे बाप दादा ली. आप इरमा हीजिये के यकीनन पेडले वाले
وَالْآخِرِينَ ﴿٣٨﴾ لَمَجْمُوعُونَ ۗ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ	और पीछे आने वाले. सब के सब जउर जमा किये जाअेंगे अेक मालूम दिन के मुकररर
مَعْلُومٍ ﴿٣٩﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيْهَا الضَّالُّونَ الْمُكذَّبُونَ ﴿٤٠﴾	वक्त में. इर तुम अे गुमराड लोगो! जुठलाने वालो!
لَأَكْلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّومٍ ﴿٤١﴾ فَمَا لَوْ	तुम जउर भाओगे जकूम के दरफ्त से. इर उसी
مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٤٢﴾ فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ	से पेट भरोगे. इर उस के उपर गर्म पानी
مِنَ الْحَمِيمِ ﴿٤٣﴾ فَشَرِبُونَ شُرَبَ الْهَيْمِ ۗ هَذَا	पियोगे. इर पियोगे प्यासे गींट के पीने की तरड. ये
نَزَّلَهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٤٤﴾ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ	उन की मेडमानी डोगी डिसाब के दिन. उम ने तुम्हें पैदा किया,
فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿٤٥﴾ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدِينُونَ ﴿٤٦﴾ ءَأَنْتُمْ	इर तुम तस्दीक कयूं नडीं करते? क्या इर तुम ने देभा वो मनी जो तुम डालते डो? क्या तुम
تَخْلُقُونَ ۗ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿٤٧﴾ نَحْنُ قَدَرْنَا	उसे पैदा करते डो या उम पैदा करने वाले हैं? उम ने तुम्हारे दरमियान

بَيْنَكُمْ الْمَوْتِ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٣٦﴾

मौत मुकदर कर दी और हम आज़िज़ नहीं हैं.

عَلَىٰ أَنْ تُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾

ईस बात से के हम तुम्हारे जैसे बढले में लाअें और तुम्हें पैदा कर दें उस शकल में जो तुम जानते भी नहीं.

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣٨﴾

यकीनन तुम्हें मालूम है पेहली पैदाईश, फिर तुम नसीहत कयूं डसिल नहीं करते?

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرَثُونَ ﴿٣٩﴾ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَ

क्या तुम ने देखा उस को जो तुम बोते हो? क्या तुम उस भेती को उगाने हो

أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٤٠﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا

या हम भेती उगाने वाले हैं? अगर हम चाहे तो हम उसे यूर यूर बना दें,

فَقَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٤١﴾ إِنَّا لَمُعْرَمُونَ ﴿٤٢﴾ بَلْ نَحْنُ

फिर तुम भातें बनाते रेड जाओ. के यकीनन हम तो कर्जदार बन गये. बढके हम

مَحْرُومُونَ ﴿٤٣﴾ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٤٤﴾

तो मडरूम हो गये. क्या तुम ने देखा वो पानी जो तुम पीते हो?

ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْبُرْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ﴿٤٥﴾

क्या तुम ने उस को बाढल से उतारा या हम उतारने वाले हैं?

لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أَجَابًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٤٦﴾

अगर हम चाहे तो उसे पारा बना दें, फिर तुम शुक्र अढा कयूं नहीं करते?

أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿٤٧﴾ ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمُ

क्या तुम ने देखा उस आग को जिसे तुम सुलगाते हो? क्या तुम ने उस का

شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ ﴿٤٨﴾ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا

ढरप्त पैदा किया या हम पैदा करने वाले हैं? हम ने उस को

تَذَكِّرَةً وَآمَنًا لِلْمُقِيمِينَ ﴿٤٩﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ

नसीहत और मुसाफिरों के लिये झंई की चीज़ बनाया. फिर अपने अज़मत वाले रब

رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٥٠﴾ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوْجِعِ النُّجُومِ ﴿٥١﴾

के नाम की तस्बीह कीजिये. फिर मैं कसम खाता हूं सितारों के गरुब की जगहों की.

وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٤٦﴾ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ

और यकीनन ये बड़ी कसम है काश के तुम जानते. ये धज्जत वाला

كَرِيمٌ ﴿٤٧﴾ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿٤٨﴾ لَا يَمَسُّهُ

कुर्आन है. वो मडकूज रफी छुई क़िताब में है (लखे मडकूज में है). उस को नहीं छूते

إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٤٩﴾ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٠﴾

मगर पाक इरिशते. ये रबुल आलमीन की तरफ़ से उतारा गया है.

أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ﴿٥١﴾ وَتَجْعَلُونَ

सो क्या तुम लोग इस कलाम को सरसरी भात समजते हो? और तुम अपना डिस्सा

رُزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكذِّبُونَ ﴿٥٢﴾ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ

ये बनाते हो के तुम उसे जुठलाते हो? इरि जब रूड ललक

الْحُلُقُومَ ﴿٥٣﴾ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ﴿٥٤﴾ وَنَحْنُ

तक पडोयती है. और तुम उस वकत का मन्जर देखते भी हो. और उम

أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿٥٥﴾

तुम से उस (मरने वाले) के जयादा करीब होते हैं, लेकिन तुम देख नहीं पाते.

فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٥٦﴾ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ

इरि अगर तुम से डिसाब लिया जाना नहीं है, तो तुम उस रूड को वापस कयूं नहीं लौटा देते अगर

صَادِقِينَ ﴿٥٧﴾ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقْرَبِينَ ﴿٥٨﴾

तुम सख्ये हो? इरि अलभता अगर वो मुकर्रबीन में से है,

فَرُوحٌ وَرِيحَانٌ ﴿٥٩﴾ وَجَدْتُمْ نَعِيمٍ ﴿٦٠﴾ وَأَمَّا

तो राहत होगी और भूशबूदार कूल होंगे. और जन्ते नईम होगी. और अलभता

إِنْ كَانَ مِنَ الْأَرْضِ الْيَمِينِ ﴿٦١﴾ فَسَلَامٌ لَّكَ

अगर वो अस्खाबे यमीन में से है, सो उस से कडा जाअगा के तेरे लिये अमन व अमान है

مِنَ الْأَرْضِ الْيَمِينِ ﴿٦٢﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكذِّبِينَ

के तू अस्खाबे यमीन (दाहने वालों) में से है. और अलभता अगर वो जुठलाने वाले गुमराहों

الضَّالِّينَ ﴿٦٣﴾ فَتُرْلَىٰ ﴿٦٤﴾ مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٦٥﴾ وَتَصْلِيَةٌ

में से है, तो उस की मेडमानी की जाअगी गर्म पानी से. और आग में

بِحَمِيمٍ ۝ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ۝ فَسَبِّحْ

हामिल करना है. यकीनन ये अलबत्ता उक्कुल यकीन है. इस लिये

بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۝

आप अपने अजमत वाले रब के नाम की तस्बीह कीजिये.

كُوْنُهَا ٢

(٥٤) سُورَةُ الْحَدِيدِ الْمَدَنِيَّةِ (٩٢)

آيَاتُهَا ٢٩

और ४ रुकूअ हैं

सूरअे उदीद मदीना में नाजिल हुँ

उस में २९ आयतें हैं

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

पण्डता हुं अल्लाह का नाम ले कर जो भडा मेहरभान, निहायत रडम वाला है

سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ

अल्लाह के लिये तस्बीह करती हैं वो तमाम थीअे जो आस्मानों और जमीन में हैं. और वो जबरदस्त है,

الْحَكِيمُ ۝ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يُحْيِي

हिकमत वाला है. उस के लिये आस्मानों और जमीन की सल्तनत है. वो जिन्दा करता है

وَيُمِيتُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ هُوَ الْأَوَّلُ

और मौत देता है. और वो हर चीज पर कुदरत वाला है. वही पेडला है

وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ

और आभिर है और वही आहिर है और भातिन है. और वो हर चीज को भूष जानने

عَلِيمٌ ۝ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

वाला है. उस ने आस्मानों और जमीन को पैदा किया

فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ يَعْلَمُ

छे दिन में, फिर वो अर्श पर मुस्तवी हुवा. वो जानता है

مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ

उन चीजों को जो जमीन में हाभिल होती हैं और जो जमीन से निकलती हैं और जो आस्मान

مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۗ وَهُوَ مَعَكُمْ

से उतरती हैं और जो आस्मान में यण्डती हैं. और वो तुम्हारे साथ होता है

أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ لَهُ

जहां तुम होते हो. और अल्लाह तुम्हारे आमाह को भूष देभ रडा है. उस के लिये

مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ

आस्मानों और जमीन की सल्तनत है. और अल्लाह की तरफ़ तमाम उभूर लौटाये

الْأُمُورَ ۗ يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ

जाअेंगे. वो रात को दिन में ढाभिल करता है और दिन को रात में

فِي اللَّيْلِ ۗ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۗ اٰمَنُوْا

ढाभिल करता है. और वो हिलों के डाल को भुभ जानता है. ँमान लाओ

بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْفِلِينَ

अल्लाह पर और उस के रसूल पर और तुम भर्य करो उन चीजों में से जिस में अल्लाह ने तुम्हें जानशीन

فِيهِ ۗ فَالَّذِينَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ اَجْرٌ

बनाया है. तो वो लोग जो तुम में से ँमान लाअे और वो भर्य करते हैं, उन के लिये बडा

كَبِيْرٌ ۗ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ ۗ وَالرَّسُوْلُ

अजर है. और तुम्हें क्या डुवा के तुम ँमान नहीं लाते अल्लाह पर? डालांके रसूल

يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ

तुम्हें भुला रडे हैं ताके तुम अपने रब पर ँमान ले आओ और उस ने तुम से त्तारी अडढ लिया है

اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۗ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ

अगर तुम भोभिन डो. वडी अपने बन्दे पर रोशन

عَلَى عَبْدٍ اٰتِيْٓ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ

आयतें उतारता है ताके वो तुम्हें निकाले त्तारीकियों से

اِلَى النُّوْرِ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

नूर की तरफ़. और यकीनन अल्लाह तुम पर बडोत जयाढा शक़त वाला, निडायत भेडरबान है.

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ مِيْرٰثٌ

और तुम्हें क्या डुवा के अल्लाह के रास्ते में तुम भर्य नहीं करते? डालांके अल्लाह डी के लिये

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ

आस्मानों और जमीन की भीरास है. तुम में से बराबर नहीं हैं वो जिन्डों ने भर्य किया

مِّنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتَلَ اَوْلِيَّكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً

इतड से पेडले और किताल किया. ये जयाढा त्तारी ढरजत वाले हैं

مَنْ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقْتَلُوا ۗ وَكُلًّا

उन की अनिश्चित जिन-हों ने उस के बाद पर्य किया और उस के बाद कितना किया. और तमाम से

وَعَدَ اللَّهُ الْحُسَيْنِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

अल्लाह ने अरुण वादा कर रखा है. और अल्लाह तुम्हारे आमाह से बाभबर है.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ

कौन है जो अल्लाह को अरुण कर दे, फिर उस के लिये अल्लाह कर्ष गुना

لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ

भण्डाअे और उस के लिये अरुण सवाभ है. जिस दिन आप देभोगे र्धमान वाले भरदों

وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ

और र्धमान वाली औरतों को के उन का नूर उन के आगे और उन के दाअें यल रडा डोगा,

بُشْرِكُمْ الْيَوْمَ الْجِدَّةُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

(कडा जाअेगा के) तुम्हें भशारत डो आज अैसी जनतों की जिन के नीचे से नेडरें भेडती डोंगी, जिन में ये

خُلْدِينَ فِيهَا ۗ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ يَوْمَ

डभेशा रहेंगे. ये भडी काम्याभी है. जिस दिन

يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا

मुनाकिक भर्द और मुनाकिक औरतें र्धमान वालों से कहेंगे के

انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ ۗ قِيلَ ارْجِعُوا

तुमडभारा र्धन्तिआर करो केडम तुम्हारे नूर से कुछ रोशनी डालसिल कर लें. (कडा जाअेगा के) तुम अपने पीछे वापस लौट

وَرَاءَكُمْ ۗ فَالتَّسْوَا نُورًا ۗ فَضْرَبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ

जाओ, वहां तुम नूर तलाश करो. फिर उन के दरभियान में अेक दीवार कर्धम कर दी जाअेगी, जिस के लिये दरवाजा

بَابٌ ۗ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ

डोगा. जिस के अन्डर में रहमत डोगी और उस के बाडर उस से आगे अजाभ

الْعَذَابُ ۝ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ ۗ قَالُوا

डोगा. वो उन को पुकारेंगे के क्या डम तुम्हारे साथ नहीं थे? वो कहेंगे

بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ

कयूंनडी? डेकिन तुम ने अपने आप को भुड अजाभ में डाला है और तुम डम पर भला के भुन्तिआर रहें और तुम शक में रहे

وَعَزَّتْكُمْ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَعَزَّكُمْ

और तुम्हें तमन्नाओं ने धोके में डाले रखा यहाँ तक के अल्लाह का हुकम आ पड़ोया और तुम्हें अल्लाह के साथ

بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿١٣﴾ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ

धोके में डाले रखा धोकेबाज शयतान ने. फिर आज न तुम से क्षिद्यता लिया जायेगा

وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوِكُمُ النَّارُ هِيَ

और न काफ़िरो से. तुम्हारा ठिकाना दोज़ाब होगा. यही

مَوْلِكُمْ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ

तुम्हारा साथी है. और बुरी जगा है. क्या ईमान वालों के लिये ईस का वक्त नहीं

آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ

आया के उन के हिल दर जाओ अल्लाह के जिक के सामने और उस हक के सामने जो

مِنَ الْحَقِّ ۚ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

उतरा है और ये न हों उन लोगों की तरह जिन को ईन से पेलले

مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ

किताब दी गई, फिर उन पर मुदत लम्बी हुई, फिर उन के हिल सप्त हो गये.

وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿١٥﴾ إِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

और उन में से अकसर नाईरमान हैं. भूब जान लो के अल्लाह

يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ

जमीन को जिन्दा करता है उस के भुशक हो जाने के बाद. यकीनन हम ने तुम्हारे लिये

الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّ الْمُبْصِرِينَ

आयतों को भोल भोल कर भयान किया है ताके तुम अकलमन्ह बन जाओ. यकीनन सहका करने वाले मर्ह

وَالْمُبْصِرَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعْفُ

और सहका करने वाली औरतें और जिन्हों ने अल्लाह को अरघा कर्ल दिया, तो उन के

لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٧﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ

लिये उस कर्ल को हुगना किया जायेगा और उन के लिये अरघा सवाब होगा. और जो ईमान लाये अल्लाह पर

وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ ۖ وَالشُّهَدَاءُ

और उस के पैगम्बरों पर, जैसे ही लोग अपने रब के नजदीक

عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَ نُورُهُمْ ۗ وَالَّذِينَ

सिद्दीक और शहीद हैं. उन के लिये उन का अजर और उन का नूर होगा. और जिन्हों ने

كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

कुड़ किया और उमारी आयतों को जूठलाया वो दोऊभी

الْجَحِيمِ ۗ اَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ

हैं. जान लो के दुन्यवी जिन्दगी तो सिई खेल

وَلَهُمْ وَ زِينَةٌ وَ تَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكَاثُرٌ

और गइलत और जीनत और आपस में इफर करना है और आपस में अेक दूसरे से

فِي الْأَمْوَالِ وَ الْأَوْلَادِ ۗ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ

बण्डना है मालों में और औलाद में. उस बारिश की तरड जिस का सभ्जा किसानों को भुश

نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَهُ مُضْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ

करता है, फिर वो लेडलेडाने लगता है, फिर तू उस को देभता है पीला, फिर वो यूरा यूरा

حُطَامًا ۗ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۚ وَ مَغْفِرَةٌ

बन जाता है. और आभिरत में सप्त अजाब और अल्लाड की

مِّنَ اللَّهِ وَ رِضْوَانٌ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

तरइ से मगफिरत और भुशनूही है. और दुन्यवी जिन्दगी नहीं है

إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ۗ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ

मगर धोके का सामान. तुम दौड लगाओ अपने रब की

مِّن رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ

मगफिरत और उस जन्त की तरइ जिस की चौडाई आस्मान और जमीन के

وَ الْأَرْضِ ۚ أَعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ

बराबर है. जो धमान वालों के लिये तैयार की गई है जो धमान रभते हैं अल्लाड पर

وَ رُسُلِهِ ۗ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ

और उस के पैगम्बरों पर. ये अल्लाड का इजल है, उस को देता है जिसे याडता है.

وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۗ مَا أَصَابَ مِنْ

और अल्लाड बडे इजल वाला है. कोई मुसीबत नहीं

पड़ोयती	अमीन	में	और	न	तुम्हारी	जानों	में
مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ							
मगर वो अेक किताब (लव्हे मडकूण) में लिखी हुई है ँस से पेडले के डम उस को पैदा करे. यकीनन ये							
إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ							
अल्लाड पर आसान है. ताके तुम गम न करो उस चीज पर							
عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۖ لَّكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَى							
जो तुम से झैत डो गई और न ँतराओ उस पर जो अल्लाड ने तुम्हें दिया. और अल्लाड							
مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ							
जो तुम से झैत डो गई और न ँतराओ उस पर जो अल्लाड ने तुम्हें दिया. और अल्लाड							
لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۚ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ							
पसन्द नहीं करता डर ँतराने वाले, इफर करने वाले को. जो भुप्ल करते हैं							
وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّ							
और ँसानों को भुप्ल का डुकम देते हैं. और जो उगरदानी करेगा							
فَأِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۗ لَقَدْ أَرْسَلْنَا							
तो यकीनन अल्लाड बेनियाज है, काबिले तारीफ है. यकीनन डम ने							
رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ ۗ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ							
अपने पैगम्बर भेजे रोशन मोअजिजात दे कर और डम ने उन के साथ किताब उतारी							
وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا							
और तराजू उतारा ताके ँसान ँसाफ को ले कर भडे डो ज्ञां. और डम ने							
الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ ۗ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ							
लोडा उतारा जिस में सप्त कुवत है और ँसानों के लिये दूसरे मनाफेअ भी हैं							
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ							
और ताके अल्लाड जान ले उस को जो अल्लाड की और उस के पैगम्बरों की नुस्रत करता है भगैर देभे.							
إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۗ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا							
यकीनन अल्लाड कुवत वाला है, जभरदस्त है. यकीनन डम ने नूड (अलैडिस्सलाम) को रिसालत दे कर भेजा							
وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ							
और ँब्राहीम (अलैडिस्सलाम) को और डम ने उन की औलाद में नुबूवत रभ दी और किताब रभ दी							

فِيهِمْ مُهْتَدٍ ۚ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿٢٣﴾

तो उन में से कुछ ढिंदायत पाने वाले हैं. और उन में से अकसर नाइरमान हैं.

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَىٰ

किर उम ने उन के पीछे उमारे पैगम्बर भेजे और उम ने ईसा ईबने मरयम

ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ ۚ وَجَعَلْنَا

(अद्वैतिससलाम) को भेजा और उम ने उन को ईञ्जल दी. और उम ने उन लोगों के

فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً ۚ وَرَحْمَةً ۗ وَرَهْبَانِيَّةً

दिलों में जिन्हों ने उन का ईत्तिबा किया नरमी और मेहरबानी रभ दी. और रडबानीयत को

اِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ

उनहों ने भूद ईजाद किया था, उस को उम ने उन पर लाजिम नही किया था, मगर अद्लाड की भुशूदी तलभ करने के

اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَآتَيْنَا الَّذِينَ

लिये, किर उस रडबानीयत की उनहों ने रिआयत नही की जैसा के उस का उक था. किर उम ने उन लोगों को

آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ۚ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿٢٤﴾

जो उन में से ईमान लाओ थे उन का सवाब दिया. और उन में से अकसर नाइरमान हैं.

يَايَٰهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَأَمِنُوا بِرَسُولِهِ

ओ ईमान वालो! अद्लाड से डरो और ईमान लाओ उस के पैगम्बर पर,

يُؤْتِكُمْ كُفُلِينَ مِّن رَّحْمَتِهِ ۖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُورًا

वो तुम्हें अपनी रडमत से द्योडरा अजर देगा और तुम्हारे लिये नूर बना देगा जिस को

تَمْسُونَ بِهِ وَيَعْفَٰرُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

लेकर तुम यलोगे और तुम्हारी मगकिरत करेगा. और अद्लाड भडोत जयादा भभशने वाला, निडायत रडम वाला है.

لِّئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ إِلَّا يَفْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ

ताके ओडले किताब जान लें के वो किसी चीज पर कादिर नही हैं

مِّن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ

अद्लाड के इजल में से और ये के इजल अद्लाड के डाय में है, वो उसे देता है

مَنْ يَّشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٦﴾

जिसे याडता है. और अद्लाड भडे इजल वाला है.